

APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE

सहायता हेतु आवेदन प्रारूप

(Healthcare)

(स्वास्थ्य दब्बभाल)

APPLICATION NO.

आवेदन संख्या :

510023/0069

APPLICATION DATE 13-04-2023

आवेदन किए

NAME of APPLICANT

आवेदक का नाम

MRS MAINA

AGE-YEARS आयु-वर्ष

61

SEX लिंग

F

FATHER'S/SPOUSE'S NAME

जितेंद्र कुमार का नाम

late M/Y Atay Singh

PRESENT RESIDENCE ADDRESS वर्तमान अवासस्थान पता

KAPOORPUR kapoarpur, Saharanpur,
Uttar Pradesh - 247001

PERMANENT RESIDENCE ADDRESS व्यापारी जाकासीय पता

Same as above



Koshika
foundation
Building block of life


PASTE PHOTO HERE

Preop Postop
MAINA(0069)

OCCUPATION:

बहनसाध

Home maker

MARRIED (विवाहित) / UNMARRIED (अविवाहित)

TOTAL ANNUAL INCOME:

कुल वार्षिक आय

50,000 (Family Income)

(Attach Proof of Income)

(आय का साक्ष चलान)

NA

PAN No. स्ट्रीट ग्राम संख्या:

NA

ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE (Tick whichever is applicable):

ज्या आप आय का दाता हो (जो मान्य हो उस पर मही का नियमन लगाये)

Yes / No

हाँ / नहीं

FAMILY DETAILS परिवार विवरण

| Sr. No. क्रम संख्या | Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम | Age (Years) उम्र (वर्ष) | Gender लिंग | Relation with Applicant आवेदक के साथ सम्बन्ध |
|------------------------|---|----------------------------|----------------|---|
| (1) | Amarjeet | 43 | M | son |
| (2) | Satpal | 40 | M | son |
| (3) | Rashmi | 42 | F | Daughter in law |
| (4) | Babli | 37 | F | Daughter in law |
| (5) | Priyadarshini | 11 | F | Grand daughter |
| (6) | Chaku | 09 | M | Grand son |
| (7) | Manu | 03 | F | Grand daughter |

BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable)

सहायता के लिये विवरण आधार

| BPL Card (Attach Card Copy) | EWS Certificate (Attach Certificate Copy) | Ration Card (Attach Copy) | Any Other Basis/Proof अन्य कोई साक्ष |
|--|--|--|--|
| गरीबी रेखा के नीचे प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की ओरा इसी मालिन करें।) | आवृत आप वाले प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की ओरा इसी मालिन करें।) | उपभोक्ता कार्ड (प्रमाण पत्र की ओरा इसी मालिन करें।) | |

"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE:

सहायता हेतु किये गए विवरों का उद्देश्य:

| Sr. No. क्रम संख्या | Medical Reports/Prescriptions Attached अस्पताल/हाईकर में जारी की गई प्रतिवेदन सूची संलग्न |
|------------------------|--|
| | Diagnosis- RE- senile cataract LE- pseudophakic |

| ASSISTANCE BEING AVAILED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES इस उद्देश्य के हेतु कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से लिया गया हो? | |
|---|---|
| Sr. No. क्रम संख्या | NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम |

| Sr. No. क्रम संख्या | NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम | AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVAILED ली गई सहायता राशि |
|------------------------|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DECLARATION by APPLICANT: आवेदक द्वारा घोषणा पर:


- 1) I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
- 2) I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
- 3) I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.
- 4) मैं घोषणा करता हूँ कि इस अध्ययन में दिए गए सभी विकल्प मेरी सहायता के अनुसार सबसे अच्छे थे। यह काफ़ी विकल्प एवं कथ्यम् अध्ययन प्राप्त ज्ञान के लिए सहायता विकल्प की जा सकती है।
- 5) मेरे द्वारा जो सहायता या "कोशिका फाउंडेशन" से ली जा रही है, उसका उपयोग उसी उद्देश्य के उपर्युक्त लिए किया जायेगा, जो इस प्राप्ति में भाग गया है।
- 6) मैं पुराना काना हूँ कि इस सहायता द्वारा यह प्राप्ति को गई है। इस गांठ का व्याख्या या प्रकार तिथि विकल्पी ज्ञान प्राप्ति विवरण बोधी कामपौरी में न हो जिसका है और न ही भविष्यम् में होगा।

AGREEMENT by APPLICANT: (आवेदक द्वारा करा)

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and its Trustees to use/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about its activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfilment of the "purpose" for which assistance is being requested.
- 2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision in this regard will be final and acceptable to me.
- 3) इस प्राप्ति पर अपने इस्तमाल या अंगठी को आप लगाकर, मैं (आवेदक) अपनी सहायता को पुराना हूँ यह "कोशिका फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध न्यायोर्ध्वे" को जारीकृत करता हूँ कि मेरा नाम, ज्ञान, फोटो और जो विवरण इस प्राप्ति में दर्शाया गया जाएगा। उम् "कोशिका" एवं न्यायोर्ध्वे द्वारा उपलब्धिकर्ता द्वारा विद्यमान भी इसका समर्थन के प्रमाणीकृत करते हैं। मेरे प्रत्येक का विवरण मेरे इनकाज के पहले या बाद में करते हैं जिसे "कोशिका फाउंडेशन" व न्यायोर्ध्वे अधिकृत है।
- 4) मैं (आवेदक) इस बात से सम्मत हूँ कि मेरा नाम, ज्ञान, फोटो और विवरण जो कि सहायता के उद्देश्य में प्रदर्शित हो जाएं सबसे सहायता का इकाई नहीं बनता। इस समर्थन में "कोशिका" एवं उपर्युक्त न्यायोर्ध्वे का विवरण अतिम अधिक आवश्यकता होगा।

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION:

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगठे का निश्चय



AGREEMENT by HOSPITAL: (हस्ताक्षर द्वारा करा)

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we (Hospital) hereby affirm & accept following:

- 1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves its right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.
- 2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & its outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in the matter.

इसमें अधिकृत, हस्ताक्षर को जारा से घामाले/गोंगो को "कोशिका फाउंडेशन" में विवरण सहायता हेतु सिफारीश की जाती है, जिसे हम (हस्ताक्षर), निम्न प्रकार में नाम व व्यवहार करते हैं।

- 1) यह कि न ही कोर्सेस और वा ही विविध में वित्तीय सहायता दियाई गई सहायता संस्थान या विद्यमान अन्य व्यक्ति से इकाई द्वारा दियी/दियाई गई जाते हैं, जैसे कि इसमें "कोशिका फाउंडेशन" में विवरणीयता उपलब्ध न हो वा अन्य सम्बन्ध में "कोशिका फाउंडेशन" हुए सहायता दियाई व्यक्तिके/व्यक्तियोंके हाथ संबद्ध रही रिक्त जाता है तो असाधारण विद्यमान अन्य वा अन्य सम्बन्धीय संस्था या विद्यमान अन्य सम्बन्धीय संस्थान से व्यक्तिका योग्यता दिया जाता है। इस पुराने में अपने काने का विवरण द्वारा दिया जाता है कि असाधारण द्वितीय व्यक्ति उक्त योग्य समर्थन हेतु किसी भी संस्कारी संस्था का विद्यमान अन्य सम्बन्ध में नहीं जैसा लिखा है।

- 2) "कोशिका फाउंडेशन" में नहीं यह सहायता करने वाले व्यक्ति को हैं। ताकि पा हस्ताक्षर द्वारा ही यह सहायता का विवरण व्यक्तिका/व्यक्तियों का चुनाव गयी है। हस्ताक्षर को विवरण दिया जाता है और "कोशिका फाउंडेशन" हुए विद्यमान में गोंगो के इकाई सुधार और आगे जाने की सही विष्येएती गोंगो का हस्ताक्षर भी होती है। "कोशिका" की काई धूमिका या विद्यमान में नहीं होती।

RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE:

स्वीकृति के लिए सम्मति

| | | |
|--|--|---|
| Date of Surgery अध्ययन की तारीख 13-04-2023 | Dr. Poonam Sharma DMC-100712 (Name of Dr. & Regn. No. with Stamp) डॉक्टर का नाम व हस्ताक्षर व रजिस्ट्रेशन नं. | Ranveer Singh Sandhu Administrator (Name, Designation & Stamp of Authorised Signatory Dr. Suresh Chandra on behalf of Hospital) नाम व वर्तमान अधिकृत अधिकारी |
|--|--|---|

FOR INTERNAL USE of KOSHIKA FOUNDATION

आनंदिक उपयोग हेतु

SIGNATURE of TRUSTEE 1
न्यायी हस्ताक्षर 1

SIGNATURE of TRUSTEE 2
न्यायी हस्ताक्षर 2

मेरा आधार
मेरी पहचान
मेरी जाति का दस्तावेज़ है। इसकी सेवा अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी है।

• मेरा आधार दस्तावेज़ है। यह एक विश्वासी और ज्ञानी दस्तावेज़ है।
• यह आधार के लिए बनाया गया है। इसकी सेवा अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी है।
• इसकी सेवा अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी है।



मेरा आधार

मेरा
MANA
जन्म तिथि / DOB: 01/01/1996
महिला / FEMALE

8580 1049 3967

मेरा आधार, मेरी पहचान



पता:
W/O: नमी राजा, फैलो,
काशीपुर, नेहरामपुर,
उत्तर प्रदेश - 247001

Address:
W/O: नमी राजा, फैलो,
काशीपुर, नेहरामपुर,
उत्तर प्रदेश - 247001

8580 1049 3967

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN